

## Report

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नयी दिल्ली (National Institute of Social Defence, New Delhi) द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के सहयोग से **“To prevent alcohol and drug abuse in the family, schools/college and community”** नामक विषय पर दिनांक 15/03/2019 को एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन शक्तिफार्म नगर पंचायत के सामुदायिक भवन के प्रांगण में किया गया। कार्यशाला का उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओम प्रकाश सिंह नेगी जी, समाजसेवी तपन सरकार और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा विभाग के समन्वयक डॉ. सिद्धार्थ पोखरियाल ने किया।



अबनिकांत कॉलेज के प्राचार्य श्री सुमित मंडल ने अपने संबोधन कहा कि युवा पीढ़ी को मद्यपान एवं नशे के चुंगल से बचने की सलाह दी। मद्यपान एवं नशा शरीर के अंगों का नुकसान करता है साथ ही आदमी के आत्म सम्मान का भी नुकसान होता है। उनको अपनी ऊर्जा मद्यपान एवं नशे के विरोध और समाज को जागरूक करने में लगानी

चाहिये। प्रतिभागियों से नशे की जगह किताबों के ज्ञान में अपना समय व्यतीत करने का आवाहन किया। श्री तपन सरकार ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज वर्तमान समय में युवा उपेक्षा का शिकार होकर धीरे-धीरे नशे की गिरफ्त में जा रहा है। नशे में लिप्त व्यक्ति को समाज और परिवार के लिए दुखदायी बताया और वर्तमान पीढ़ी को शराब व नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओम प्रकाश सिंह नेगी ने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय का हमेशा ये प्रयास रहा है कि राज्य के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाये। सभी सामाजिक कुरीतियाँ अशिक्षा के कारण समाज में व्याप्त रहती हैं। इसलिए वर्तमान में आवश्यकता है कि शिक्षा के माध्यम से सभी कुरीतियों के खिलाफ समाज के लोगों को जागरूक किया जाये।



विशेषज्ञ डॉ. निधि बडथवाल ने शराब के सेवन महिलाओं एवं पुरुषों को होने वाली बीमारियों के बारे में बताते हुए नशे एवं शराब का हमारे शरीर में पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं हानि के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही नशे और शराब को छोड़ने हेतु मनोवैज्ञानिक उपाय भी बताये। श्री ताराचंद मंडल ने वर्तमान पीढ़ी को शराब व नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया और मुक्त विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान के नशे के खिलाफ जागरूकता के संयुक्त प्रयास की सराहना की। कार्यशाला संयोजक डॉ. सिद्धार्थ पोखरियाल द्वारा अपने उद्बोधन में मद्यपान एवं नशा के बर्तमान प्रभाव पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया युवाओं को नशे की गिरफ्त में ना फंसने की सलाह देते, निर्माण में सहयोग करने की बातहुए राष्ट्र कही इसके अतिरिक्त वर्तमान में नशे के नए नए प्रकारों के बारे में और

उनसे बचाव सम्बन्धी जानकारी दी और शराब बंदी पर हुए विभिन्न आन्दोलनों की जानकारी दी। साथ ही मुक्त विश्वविद्यालयद्वारा पूर्व में चलाये गये कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षकों एवं छात्रों और स्थानीय लोगों को नशे एवं शराब के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करना बताया। प्रतिभागी छात्रा संजना पाण्डेय द्वारा सभी प्रतिभागियों से समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक शराब एवं नशे से परिवार, समाज एवं विद्यालय पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को बताने की अपील की गयी।



दीपक राय द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यशाला में शक्तिफार्म क्षेत्र के विभिन्न कॉलेज के शिक्षक एवं छात्रों सहित स्थानीय संस्थाओं के लोग उपस्थित रहे।

# आगरा उजाला

## सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनजागरण जरूरी

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से शक्तिफार्म क्षेत्र के सामुदायिक केंद्र में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें नशाखोरी से परिवार, समुदाय और विद्यालय पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. ओम प्रकाश सिंह नेगी ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जाए। विषय विशेषज्ञ डॉ. निधि ने शराब के सेवन से महिलाओं एवं पुरुषों को होने वाली बीमारियों के बारे में बताया इस मौके पर कार्यशाला के संयोजक डॉ. सिद्धार्थ पोखरियाल, मंदिर समिति शक्तिफार्म के अध्यक्ष सपन सरकार, संजना पांडे, प्रिंसिपल सुमित मंडल, दीपक राय, ताराचंद मंडल आदि मौजूद रहे। ब्यूरो



## 8 दैनिक जागरण हल्द्व

### एक नजर

उत्तराखंड मुक्त विवि में नशा व शराब से मुक्ति पर व्याख्यान

जासं, हल्द्वानी : उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शक्तिफार्म क्षेत्र के सामुदायिक केंद्र में नशा एवं शराब का परिवार समुदाय और विद्यालय पर दुष्प्रभाव से संबंधित विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। जिसमें नशा और शराब मुक्ति पर विचार व्यक्त किए गए। इस दौरान कुलपति प्रो. ओम प्रकाश सिंह नेगी, ताराचंद मंडल, डॉ. निधि के साथ ही शक्तिफार्म क्षेत्र के स्थानीय विद्यालयों के छात्र-अध्यापक मौजूद रहे।

## नशे के खिलाफ जन जागरूकता जरूरी

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड मुक्त विवि की ओर से शक्तिफार्म के सामुदायिक केंद्र में नशे के खिलाफ कार्यशाला हुई। यहां मुक्त विवि के कुलपति प्रो. ओम प्रकाश सिंह नेगी, संयोजक डॉ. सिद्धार्थ पोखरियाल, ताराचंद मंडल, दीपक राय आदि रहे।

